



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17072023-247352  
CG-DL-W-17072023-247352

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

---

सं. 26]	नई दिल्ली, जुलाई 9—जुलाई 15, 2023, शनिवार/आषाढ़ 18—आषाढ़ 24, 1945
No. 26]	NEW DELHI, JULY 9—JULY 15, 2023, SATURDAY/ASHADHA 18—ASHADHA 24, 1945

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

---

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़, लेखाकार, भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़, लेखाकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता: वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	1* (2023 ) ‘कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।</p> <p>(ख) अनुभव: किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	<p>सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> <p><b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।</p>	प्रतिनियुक्ति/आमेलन के ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन:</p> <p>क. केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे अवर प्रवर्ग लिपिक जिन्होंने श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान और प्रबंधन या समतुल्य के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा किया हो और जो रोकड़, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ —अध्यक्ष;</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), (औषध), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —सदस्य;</li> <li>वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी-II), क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ —सदस्य।</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>रखते हों; (को अब वरिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है), जिनके ना होने पर;</p> <p>ख. केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छः वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4(25500-81100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या समतुल्य के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा किया हो और जो रोकड़, लेख और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव रखते हों;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए.12018/02/2020-डीआरएस-(भाग-VII)]

विकाश आर महातो, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi, the 12th July, 2023

**G.S.R. 78.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, Accountant, Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant, in the Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, Accountant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Accountant.	1*(2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (35400-112400).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
(a) Qualification: Bachelor Degree from a recognised University or institute. (b) Experience:  Two years' experience in Cash, Account and Budget work in a Government office or public sector undertakings or autonomous body or statutory body.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.

<p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	
--	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
<p>Two years for direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>By deputation/absorption failing which by direct recruitment.</p>	<p>Deputation / absorption:</p> <p>A. Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service(now re-designated as Senior Secretariat Assistant with eight years regular service in the grade having undergone training in Cash and Account works in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years experience of Cash, Account and Budget work; failing which;</p> <p>B. Officer of the Central Government, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh - Chairman; 2. Deputy Director (Administration), (Drugs) Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare - Member; 3. Senior Scientific Officer (Grade-II), Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/02/2020-DRS-Part(VII)]

BIKASH R MAHATO, Under Secy.

## संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

**सा.का.नि. 79.**—केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (1975 की संख्या 22) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रामपुर रजा पुस्तकालय सेवा विनियम, 2022 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर में निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इस विनियम का नाम संस्कृति मंत्रालय, रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, निदेशक, भर्ती विनियम, 2023 होगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा तत्संबंधी वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि:** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता :** वह व्यक्ति -  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह या संविदागत विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या संविदागत विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

**6. व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद (पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	लेवल-14 (144200-218200/- रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) तीन वर्ष के लिए या संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा इस अवधि का सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	<p>1. निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित सांविधिक या स्वायत्त संगठनों विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-13क (131100-216600/- रु.) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>या</p> <p>iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-13 (123100 - 215900/- रु.) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों-</p> <p>(क) अनिवार्य अर्हता:</p> <p>(i) अरबी या फारसी या उर्दू या हिंदी या संस्कृत या इस्लामी अध्ययन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध विद्वान।</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>(iii) कम से कम पांच पुस्तकें या दस शोध पत्र आदि प्रकाशित हुए हों।</p>



	<p>(iv) किसी तुलनीय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय या अन्य अध्यापन/अनुसंधान संस्था में अध्यापन या शोध या प्रशासन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता :</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, डेटा प्रोसेसिंग आदि में डिग्री या डिप्लोमा;</p> <p>(ii) उपर्युक्त अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत यथा उल्लिखित विषयों में से किसी में पी.एचडी. डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण:</b></p> <p>(i) प्रतिनियुक्ति के लिए आयु-सीमा (अल्पावधि संविदा सहित) 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(ii) आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की सामान्य अंतिम तारीख होगी।</p> <p>(iii) निदेशक, रामपुर रजा पुस्तकालय के पद पर पदधारी की अधिकतम अनुमेय आयु 60 वर्ष होगी।</p> <p>(iv) चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर अर्हता या अनुभव में छूट दी जा सकती है।</p> <p>(v) प्रतिनियुक्ति की अवधि, उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतः 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>चयन समिति :</b> (1) अध्यक्ष, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड - अध्यक्ष (2) भारत सरकार का एक नामिति - सदस्य (3) रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा अपने ही सदस्यों में से नामित किया जाने वाला एक सदस्य - सदस्य; (4) रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित विषय विशेषज्ञ - सदस्य; और (5) अध्यक्ष, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा नामित राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. स. 26-4/2020-पुस्त.]

मुग्धा सिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 12th July, 2023

**G.S.R. 79.**—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Rampur Raza Library Act, 1975 (22 of 1975) and in supersession of the Rampur Raza Library Service Regulations, 2022, in so far as they relate to the post of Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Rampur Raza Library Board with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Director in the Rampur Raza Library, Rampur, namely : —

1. **Short title and commencement.** – (1) This regulation may be called the Ministry of Culture, Rampur Raza Library, Rampur, Director, Recruitment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.** – The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director.	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level-14 (Rs. 144200-218200).	Not applicable.

Age-limit for direct recruitment.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether Age and Educational Qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Deputation (including Short-term contract) for three years or may be extended up to seven years	Deputation (Including Short-Term Contract) from amongst: Officers of the Central or State Government or Union territories or Statutory or Autonomous organisations funded by Central or State Government, Universities and recognised

	<p>by the Rampur Raza Library Board with the approval of Ministry of Culture, Government of India.</p>	<p>research institutions-</p> <p>(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>(ii) with Two years' service in the grade rendered after appointment there on regular basis in post of level- 13A (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>Or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment there on regular basis in post in level-13 (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>(B) possessing the qualifications and experience as under:</p> <p>(a) Essential Qualification:</p> <p>(i) a renowned scholar in Arabic or Persian or Urdu or Hindi or Sanskrit or Islamic Studies or Medieval Indian History;</p> <p>(ii) Master Degree in any of the above disciplines from a recognised university or institute;</p> <p>(iii) having published at least five books or ten Research Papers etc;</p> <p>(iv) at least Five years' experience of teaching or research or administration in a comparable Library, University or other Teaching/Research Institution;</p> <p>(b) Desirable Qualification:</p> <p>(i) Degree or Diploma in Library Science or Library and Information Science, Computer Science, Data Processing etc. from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) Degree of Ph.D. in any of the subjects as mentioned under Essential Qualification above.</p> <p><b>Note:-</b></p> <p>(i) The age-limit for deputation (including short term contract) shall not exceed fifty six years.</p> <p>(ii) The crucial date for determining the age-limit shall be the normal closing date for receipt of application from the candidates in India.</p> <p>(iii) The maximum permissible age up to which the</p>
--	--	---

		<p>incumbent may hold the post of Director, Rampur Raza Library will be sixty years.</p> <p>(iv) The qualification or experience may be relaxed on the basis of recommendation of the Selection Committee.</p> <p>(v) The period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall not ordinarily exceed seven years.</p>
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p><b>Selection Committee:</b></p> <p>(1) Chairman, Rampur Raza Library Board – Chairman;</p> <p>(2) a nominee of the Government of India- Member;</p> <p>(3) a member to be nominated by the Rampur Raza Library Board amongst themselves- Member;</p> <p>(4) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Rampur of the Rampur Raza Library Board- Member; and</p> <p>(5) an Officer of Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by the Chairman, Rampur Raza Library Board- Member.</p>	Not applicable.

[F. No. 26-4/2020-Lib.]

MUGDHA SINHA, Jt. Secy.